

हमने अपनी पिछली class में nouns के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं उन words के बारे में जिनका प्रयोग हम noun की जगह करते हैं। ऐसे शब्दों को Pronoun (सर्वनाम) कहते हैं।

संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को Pronoun (सर्वनाम) कहते हैं। (A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence.) Nouns की तरह ही Pronouns भी किसी वाक्य का subject बनाते हैं।

इसके बारे में detail में जानने से पहले जानते हैं कि क्यों इसे जानना जरूरी है -

1) वाक्य में एक ही शब्द को बार बार दोहराने से वाक्य की खूबसूरती खराब हो सकती है। जैसे मान लीजिये आप अपनी बहन "सारा" के बारे में बात कर रहे हैं -

Sarah has always loved fashion. Sarah announced that Sarah wants to go to fashion school.
(सारा को हमेशा से फैशन से प्यार रहा है। सारा ने घोषणा की कि सारा फैशन स्कूल जाना चाहती है।)

इस वाक्य में सारा शब्द का प्रयोग बार बार करने से वाक्य उतना प्रभावशाली नहीं दिखाई देता। इसलिए हम Pronoun का प्रयोग करते हैं। Sara की जगह हम SHE का प्रयोग करते हैं।

Sarah has always loved fashion. She announced that she wants to go to fashion school.
(सारा को हमेशा से फैशन से प्यार रहा है। उसने घोषणा की कि वह फैशन स्कूल जाना चाहती है।)

Pronoun का प्रयोग करने के बाद वही वाक्य सुनने और पढ़ने में अधिक प्रभावशाली लगता है।

2) Pronoun की सही जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए इसके भेदों को जानना और उनका सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है। जैसे आपने notice किया होगा कि कुछ लोग अपने आप को introduce करने के लिए कहते हैं -

Myself Sara.

अगर आप भी ऐसा ही बोलते हैं तो be sure इंटरव्यू के पहले चरण में ही आप reject हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी employer एक अच्छे वक्त को रखना चाहेगा जिसको भाषा का सही ज्ञान हो। पर आपकी यह इंग्लिश आपका गलत प्रभाव डालती है। Myself एक reflexive pronoun है और इससे वाक्य शुरू नहीं होता इसलिए सही वाक्य होगा -
I am Sara.

या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं और अपने pet के बारे में बात कर रहे हैं -

I have a dog. It always barks. (मेरे पास एक कुत्ता है। वह हमेशा भौंकता है।)

पर अगर आपको Pronoun की सही जानकारी ना हो और आप It के स्थान पर they का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों के बीच आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। हमेशा याद रखें कि Pronoun हमेशा Noun के according होता है। अगर noun एकवचन है तो pronoun भी एकवचन होगा। अगर noun स्त्रीलिंग (feminine) है तो pronoun भी feminine ही होगा।

तो आइए अब हम pronoun के भेद जान लें ताकि बोलते समय या लिखते समय इनके प्रयोग में गलती न करें।

Pronoun को 8 भागों में बांटा गया है -

- 1) **Personal Pronoun.** (व्यक्तिवाचक सर्वनाम)
- 2) **Possessive Pronoun** (स्वत्वबोधक सर्वनाम)
- 3) **Reflexive Pronoun** (निजवाचक सर्वनाम)
- 4) **Relative Pronoun** (संबंधवाचक सर्वनाम)
- 5) **Demonstrative Pronoun** (निश्चयवाचक सर्वनाम)
- 6) **Indefinite Pronoun** (अनिश्चयवाचक सर्वनाम)
- 7) **Interrogative Pronoun** (प्रश्नवाचक सर्वनाम)
- 8) **Distributive Pronoun** (वितरणवाचक सर्वनाम)

1) Personal Pronoun (व्यक्तिवाचक सर्वनाम)

जो Pronoun सीधे सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाये, उन्हें Personal Pronoun कहते हैं। (Personal pronouns are used as a substitute for a person's name.) Personal Pronoun दो तरह के होते हैं - subjective (वाक्य में कर्त्ता की तरह) और objective pronouns (वाक्य में object की तरह) काम करता है।

Subjective Personal Pronoun इस तरह है -

I, you, he, she, it, we, they

For example:

They went to the mall.

I don't want to eat.

He runs a jewelry shop in town.

Objective Personal Pronoun इस तरह है -

me, you, her, him, it, us, them

For example:

Please don't sit beside me.

Go talk to her.

ध्यान रखिये कभी भी Objective Personal Pronoun से वाक्य को शुरू ना करें। यह गलत है।

Personal Pronoun को हम एक अलग तरह से भी विभाजित कर सकते हैं -

a) First Person (प्रथम पुरुष): खुद के बारे में बात की जाती है। जैसे I and We

I am a boy. (मैं एक लड़का हूँ।)

We are Friends (हम दोस्त हैं)

b) Second Person (मध्यम पुरुष): इस सर्वनाम में जिससे बात की जाती है। जैसे You.

For Example:

You are beautiful. (तुम सुंदर हो।)

c) Third Person (अन्य पुरुष): इस सर्वनाम में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे he, she, it, they, we

For Example:

They are children. (वे बच्चे हैं।)

It is a book. (यह एक किताब है)

2) Possessive Pronoun (स्वत्वबोधक सर्वनाम)

ऐसे Pronoun जिनसे स्वयं के भाव का बोध हो, उन्हें Possessive Pronoun कहते हैं। Possessive का अर्थ ही होता है किसी पर अधिकार दिखाना। इसलिए जो शब्द किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाए, उन्हें Possessive Pronoun कहते हैं। जैसे -

my, mine, our, ours, its, his, her, hers, their, theirs, your and yours (These are all words that demonstrate ownership.)

These are your toys. (ये आपके खिलौने हैं।)

This is my house. (यह मेरा घर है।)

Those books are mine. (वो किताबें मेरी हैं।)

ध्यान . रखिये Possessive pronouns में कभी apostrophe (') नहीं लगाते -

Is that car yours/hers/ours/theirs?

आप इस तरह नहीं लिख सकते -

Is that car your's/her's/our's/their's?

लिखते समय यह गलती ना करें।

हम possessive pronoun का प्रयोग पूरे वाक्यांश को दोहराना ना पड़े, इसके लिए भी करते हैं जैसे -

Is that Sara's car?

No, it's mine. (NOT No, it's my car.)

हम possessive pronouns और nouns का प्रयोग of के बाद कर सकते हैं जैसे -

Sara is one of my friends. या फिर Sara is a friend of mine.

(Sara is a friend of me. बोलना या लिखना गलत है।)

3) Reflexive Pronoun (निजवाचक सर्वनाम)

जब **subject** द्वारा किया हुआ काम स्वयं उसी पर ही होता है तो उसे **Reflexive Pronoun** कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब वाक्य में **myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself** और **themselves** के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता हुआ प्रतीत होता है, तब इन्हें **Reflexive Pronouns** कहा जाता है। जैसे

-

You have to work yourself. (आपको खुद काम करना होगा।)

I will open it myself. (मैं इसे खुद खोलूँगा।)

They had to cook for themselves. (उन्हें अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ता था।)

She walked home by herself. (वह खुद घर चली गई।)

दिए गए वाक्यों में **yourself, myself, themselves** और **herself** **Reflexive Pronoun** है क्योंकि इन शब्दों से कार्य स्वयं मतलब कर्ता पर किया हुआ पता चल रहा है।

अब Reflexive Pronoun को कहाँ और कैसे use किया जाएगा, यह भी जान लेते हैं क्योंकि Spoken और written English में यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ competitive exams की दृष्टि से भी यह जरूरी है

-

1) हम reflexive pronoun का प्रयोग उन verbs के बाद नहीं करते जो उन चीज़ों को दर्शाती है जो लोग normally अपने लिए करते हैं। (We do not use a reflexive pronoun after verbs which describe things people usually do for themselves.)

He washed in cold water.

He always shaved before going out in the evening.

2) preposition by के साथ reflexive pronoun का प्रयोग किया जाता है उस condition में जब -

--- यह दिखाने के लिए कि किसी ने बिना किसी की मदद के काम किया

I prepared the whole meal by myself.

---- यह बताने के लिए कि कोई बिल्कुल अकेला है या था -

He lived by himself in an enormous house.

--- जब हम किसी **famous** व्यक्ति के द्वारा किये गए कार्य के बारे में बात करते हैं तो उस पर जोर देने के लिए **reflexive pronoun** का प्रयोग करते हैं -
Sir Paul McCartney himself sang the final song.

अभी तक जितने भी **pronoun** के प्रकार हमने जानें वे सभी **common** थे पर क्या आपको पता है **who, which, whom** इत्यादि भी वाक्यों में **pronoun** की तरह प्रयोग होते हैं। ये **pronouns** दो वाक्यों के एक सम्बन्ध स्थापित करता है जिसे **Relative Pronoun** (संबंधवाचक सर्वनाम) कहते हैं। जल्दी से हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं -

4) Relative Pronoun (संबंधवाचक सर्वनाम)

Relative Pronoun उस **noun** से संबंध प्रकट करता है जिसकी बारे में वह बता रहा है। अन्य शब्दों में, **Relative Pronoun** (संबंधवाचक सर्वनाम) दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये **Pronoun** पहले वाक्य के **noun** या **pronoun** के बारे में जानकारी देते हैं। **Relative Pronouns** इस प्रकार है -

who and whom for people (व्यक्ति)

which for things (वस्तु)

that for people or things. (व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए)

The girl who came here was my sister. (वह लड़की जो यहाँ आयी, मेरी बहन थी।)

The pen which you gave me was very expensive. (आपने मुझे जो कलम दी थी, वह बहुत महंगी थी।)

This is the house that my father built. (यह वह घर है जिसे मेरे पिता ने बनाया था।)

तो अब बोलते समय सही जगह पर इन **pronouns** का प्रयोग करिएगा।

5) Demonstrative Pronoun (निश्चयवाचक सर्वनाम)

These, Those, This, That कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। ये सभी **Demonstrative Pronoun** है मतलब ऐसे **pronoun** जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें। इसका प्रयोग वस्तु या की निकटता या दूरी दिखलाने के लिए भी किया जाता है। **English** लिखते समय या बोलते समय आप ध्यान रखें कि कहाँ **this** का प्रयोग होगा और कहाँ **that** का।

this का बहुवचन है **these** और **that** का बहुवचन रूप है **those** होता है।

This is my car. (यह मेरी कार है।)

These are my cars. (ये मेरी कार हैं।)

This और **These** का प्रयोग पास की वस्तु को बताने के लिए किया जाता है।

That is my brother. (वह मेरा भाई है।)

Those are my cars. (वे मेरी कारें हैं।)

That और **Those** का प्रयोग दूर की चीज़ों को बताने के लिए होता है।

साथ या भी याद रखें कि **this/ that** के साथ **- is/ was** का और **These/ those** के साथ **are/ were** का प्रयोग होता हटा है।

या सभी चीज़ों बहुत मामूली सी जान पड़ती हैं पर बोलते समय इनका ध्यान हम नहीं रखते और गलत इंग्लिश बोलते हैं जिससे हमारा **impression** अच्छा नहीं पड़ता।

6) Indefinite Pronoun (अनिश्चयवाचक सर्वनाम)

Everybody loves to eat pizza.

अगर आपसे इस वाक्य में से **Pronoun** को चुनने के लिए बोला जाए तो? **Confuse** हो गए क्या? सोच रहे हैं कि कही **question** तो गलत नहीं पूछ लिया।

नहीं। इस वाक्य में **Everybody pronoun** है। कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को नहीं दर्शाते, उनका उपयोग एक सामान्य तौर पर किया जाता यही। ऐसे **Pronoun** को **indefinite pronoun** (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) कहते हैं।

Everybody enjoyed the concert. (सभी ने संगीत कार्यक्रम का आनंद लिया।)

Everything was ready for the party. (पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था।)

Somebody has stolen my car. (किसी ने मेरी कार चुराई है।)

Nobody can help you in this issue. (इस मुद्दे में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता।)

इसके अलावा भी कुछ और **words** हैं जिनका प्रयोग हम **Indefinite Pronoun** की तरह करते हैं।

यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है -

1) इन शब्दों का प्रयोग **adjective** (विशेषण) की तरह भी होता है। इसलिए यहाँ पर इनके **usages** के आधार पर **pronoun** या **adjective** के श्रेणी में रखा जाता है।

2) **Indefinite Pronoun** के बाद हमेशा **singular verb** का प्रयोग होता है।

3) पर जब इन **pronouns** के लिए अन्य **pronoun** का प्रयोग करते हैं तो वह **Plural** होता है जैसे -
Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.

7) Interrogative Pronoun (प्रश्नवाचक सर्वनाम)

Interrogative pronouns (प्रश्नवाचक सर्वनाम) दिखने में **Relative Pronouns** दिखने में लगभग एक सामान ही होते हैं पर वाक्य में इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। **Interrogative pronouns** प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किये जाते हैं -

Who is your friend? (आपका दोस्त कौन है?)

Whose coat is this? (यह किसका कोट है?)

What do you want? (आप क्या चाहते हैं?)

Which newspaper do you read - The Times of India or The Hindustan Times? (आप कौनसा अखबार पढ़ते हैं - The Times of India या The Hindustan Times?)

हम इनके बारे में **detail** में जानेंगे एक अलग क्लास में क्योंकि यह एक बहुत ही **important topic** है।

8) Distributive Pronoun (वितरणवाचक सर्वनाम)

Distributive Pronoun को हिन्दी में विभाजक कहते हैं ! जिस **Pronoun** का प्रयोग विभाजक के रूप में **Noun** के बदले किया जाता है उसे **Distributive Pronoun** कहते हैं, और जब **each, either** और **neither** का प्रयोग **Pronoun** के रूप में होता है, तब इन्हें **Distributive Pronoun** कहा जाता है। जैसे -

each-प्रत्येक, **either**-दोनों में से कोई एक, **neither**-दोनों में से कोई नहीं. **every**-दो से अधिक व्यक्तियों के लिए.

Each of us is intelligent. (हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है।)

Either of you can go. (आप दोनों में से कोई एक जा सकता है।)

Neither of the two boys has won the prize. (दोनों में से किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता है।)

Every one of the five players has won the prize. (पांच खिलाड़ियों में से हर एक ने पुरस्कार जीता है।)

आज की **class** में हमने **Pronouns** के बारे में **detail** में जाना और देखा कि **pronoun** सिर्फ **I, we, you they, he, she, it** ही नहीं होते। इनके अलावा भी बहुत से **words** को **pronoun** की तरह **use** किया जाता है। इसके अलावा

आपने यह भी जाना कि **pronoun** सिर्फ वाक्य के पहले या अंत में ही नहीं लगता, कुछ **pronouns** का प्रयोग वाक्य के बीच में भी होता है।

मुझे उम्मीद है कि अब आप लिखते समय या बोलते समय **pronouns** के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे और **exams** की दृष्टि से भी आज का **lesson** बहुत ही **important** है।

तो अब हम मिलेंगे **next class** में एक नए **grammar topic** के साथ।

Pronouns - सर्वनाम

I - मैं

you - आप

he - वह

she - वह

we - हम

they - वे

me - मुझे

you - आप

him - उसे

her - उसकी

us - हम

them - उनको

my - मेरा (p) मेरी (f)

your - तुम्हारा (s) आपका (p)

his - उसकी

her - उसके

our - हमारे

their - उनके

mine - मेरा

yours - तुम्हारा

his - उसकी

hers - उसका (p) and उसकी (f)

ours - हमारा

theirs - उनका (m) and उनकी (f)